



अखिल भारतीय अग्नि प्रबंधन एवं सुरक्षा संचालन विद्या संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF FIRE TECHNOLOGY AND SAFETY MANAGEMENT

ASSOCIATED WITH TECHNICAL AND PARAMEDICAL EDUCATION COUNCIL

AIIFTSM EXAMINATION FORM

EXAM Fees : 750/- Rs.

Instruction (सुचना)

Fill up the form in self written English CAPITAL letters.

(फॉर्म इन्ग्लिश में केपिटल लेटर्स में स्वहस्ताक्षर में भरीए)

Write your name as it is mentioned on your HSC mark sheet.

(आपका नाम आपकी एच. एस.सी की मार्कशीट के अनुसार ही भरीए)



Applicant information (अरजीकर्ता की विगत)

Fullname (पुरा नाम)	
Enrollment No. (एनरोलमेन्ट नं.)	
Registration No. (पंजीकरण नं.)	
Date of Birth (जन्म की तारीख)	
Gender (लिंग)	
Student Type (छात्र प्रकार)	
Caste (जाति)	

Contact Information (संपर्क करने हेतु सुचना)

Address (Permanent) With Pincode (स्थायी पता पिन कोड के साथ)	
Address(Correspondence) With Pincode (पत्र व्यवहार पता पिन कोड के साथ)	
Mobile No. (मोबाईल नं.)	
E-Mail (ई मेल)	

Examination information (परीक्षा हेतु सुचना)

Name of the course (अभ्यासक्रम)	
Year (साल)	
Exam center (परीक्षण केंद्र)	
Name of Institute (शिक्षा संस्थान का नाम)	

Whole (W) / Part (P) / ATKT (A)

Sr. No. (क्रमांक नं.)	Subject (विषय)	Code (कोड)	Ex/int* (एक्ष.)

Date

.....
Signature of Candidate

----- **For office use only** -----

Name of the Examination :

Institute Code :

The student has fulfilled the requirements for being eligible for appearing in the AIIFTSM / TPEC examination as per the AIIFTSM/TPEC rules and regulations.

Signature of the verifier with Date

AIIFTSM/TPEC Stamp

**Signature of Administrative
Officer - AIIFTSM/TPEC**